

## प्रेस नोट दिनांक-29.08.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीमों ने 04 अभियुक्तों के कब्जे से 35 लीटर कच्ची शराब बरामद की।

(क). वरि030नि0 श्री कम्बोद सिंह थाना मारकुंडी तथा आबकारी की संयुक्त टीम ने अभियुक्त रामचरण पुत्र निओरा निवासी जारोमाफी थाना मारकुंडी जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मारकुंडी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

(ख). थाना मानिकपुर एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने अभियुक्ता रमदसइया कोल पत्नी स्वर्गीय गंगा कोल निवासी ग्राम सरहट थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 05 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्ता के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ग). 30नि0 श्री रवि सिंह थाना राजापुर तथा आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने अभियुक्त 1. लवकुश केवट पुत्र बबू 2. पुरुषोत्तम उर्फ बबुआ पुत्र बदलू निवासीगण सिरावलमाफी थाना को थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 10-10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये।

(2). आज दिनांक 29.08.2021 को खेल दिवस के अवसर पर आजादी के महोत्सव के अन्तर्गत मेजर ध्यानचन्द्र जी की 116वीं जयंती समारोह के अवसर पर कस्बा शिवरामपुर से जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शुभ्रांत कुमार शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल द्वारा क्रास कंट्री रेस को हरीझण्डी दिखाकर रवाना किया गया। तत्पश्चात जिलाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा राजकीय बालिका हाई स्कूल में मेजर ध्यानचन्द्र जी की 116 वीं जयंती के अवसर पर मिशन शक्ति अभियान के क्रम में आयोजित कार्यक्रम में जाकर सरस्वती वंदना की एवं मेजर ध्यानचन्द्र जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रधांजलि दी गयी।

कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी को खेल दिवस की शुभकामनाएं दी तथा कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्राओं को आश्वासन दिया गया कि बालिका विद्यालय के आस पास धूमने वाले अराजकतत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपने सम्बोधन के दौरान प्रसन्नता व्यक्त करते हुये कहा कि खेल दिवस के अवसर बालिका विद्यालय में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उससे बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा तथा नारी शक्ति को आत्मबल मिलेगा। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के तहत शासन के विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में जागरूक किया गया।

तत्पश्चात जिलाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्रास कंट्री रेस में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया तथा चौथे, पांचवें, छठवें एवं सातवें स्थान पर आने वाले छात्रों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी श्री गणेश प्रसाद सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्या बालिका हाई स्कूल शिवरापुर, ग्राम प्रधान शिवरामपुर, पीआरओ श्री राजीव कुमार सिंह तथा अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(3). 30प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान 3.0 के अन्तर्गत श्री धवल जायसवाल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 29.08.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना भरतकूप द्वारा ग्राम भारतपुर के भरतकूप मंदिर में, एंटी रोमियो

टीम थाना रैपुरा द्वारा ग्राम रामपुर में, एंटी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा कस्बा मानिकपुर में, एंटी रोमियो टीम थाना कोतवाली कर्वी द्वारा बस स्टैंड ,ट्रैफिक चौराहा, काली देवी तिराहा, पांडेय कॉलोनी आदि क्षेत्रों में, एंटी रोमियो टीम थाना मारकुंडी द्वारा ग्राम अमचुर नेरुवा, किहुनिया में, एंटीरोमियो टीम महिला थाना द्वारा पुरानी कोतवाली चौराहा, भैरोपागा, गंगा जी रोड, काली देवी चौराहा में भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया । महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया।